

प्रेस नोट

जनपद

रामपुर

दिनांक

25.07.2022

twitter-@rampurpolice

FB-रामपुर पुलिस

Telegram-@rampurpolice

श्रीमान पुलिस अधीक्षक जनपद रामपुर श्री अशोक कुमार शुक्ला द्वारा रामपुरवासियों को दी गयी खुशियों की सौगात

जनपदीय सर्विलांस/साईबर सैल टीम द्वारा आम-जन के खोये हुए 45 अदद मोबाईल बरामद अनुमानित कीमत लगभग 05 लाख 25 हजार रुपये है

श्रीमान पुलिस अधीक्षक जनपद रामपुर श्री अशोक कुमार शुक्ला के आदेश के क्रम में डा0 संसार सिंह अपर पुलिस अधीक्षक के कुशल पर्यवेक्षण में एव श्री अमरीश कुमार प्रभारी निरीक्षक एसओजी/सर्विलांस सैल, रामपुर के नेतृत्व में नागरिकों के खोये हुए मोबाईल फोन बरामद किये जाने हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में कार्यालय पुलिस अधीक्षक में सभी थाना क्षेत्र से मोबाईल गुमशुदगी के सम्बन्ध में प्रार्थना पत्र प्रदान किये गये थे। प्राप्त प्रार्थना पत्र को सर्विलांस पर लगाकर बरामद किये जाने हेतु श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा आदेश/निर्देश के अनुपालन में सर्विलांस/साईबर टीम द्वारा अथक प्रयास के माध्यम से 45 अदद मोबाईल फोन बरामद किये गये जिनकी अनुमानित कीमत लगभग 05 लाख 25 हजार रुपये है।

आज दिनांक 25-07-2022 को पुलिस कार्यालय में श्रीमान पुलिस अधीक्षक जनपद रामपुर श्री अशोक कुमार शुक्ला द्वारा बरामद मोबाईल फोन को सम्बन्धित मोबाईल धारकों को सौपा गया। इस सफलता पर मोबाईल धारकों द्वारा जनपदीय पुलिस की भूरि-भूरि प्रशंसा की जा रही है। मोबाईल धारकों द्वारा बताया गया कि उन्हे विश्वास नहीं था, कि उन्हे अपना खोया हुआ मोबाईल वापस मिल पायेगा। मोबाईल धारकों को सचेत किया गया कि अपने मोबाईल फोन की सुरक्षा जिम्मेदारी से करें। सर्विलांस/साईबर सैल द्वारा पूर्व में भी कई मोबाईल फोनों को बरामद कर मोबाईल धारकों को उपलब्ध कराये जा चुके है।

उक्त सराहनीय कार्य करने वाली पुलिस टीम का विवरण

- 01- श्री अमरीश कुमार प्रभारी निरीक्षक सर्विलांस/एसओजी, रामपुर।
- 02- उ0 नि0 श्री अमित कुमार एसओजी, रामपुर।
- 03- उ0 नि0 श्री सचिन कुमार साईबर सैल, रामपुर।
- 04- मुख्य आरक्षी 36 टीकाराम चौहान सर्विलांस सैल, रामपुर।
- 05- मुख्य आरक्षी 17 दिनेश कुमार सर्विलांस सैल, रामपुर।

- 06- आरक्षी 644 जय कुमार सर्विलांस सैल, रामपुर।  
07- आरक्षी 1064 दीपक कुमार साईबर सैल, रामपुर।